



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 17—जुलाई 23, 2010 (आषाढ़ 26, 1932)
No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 17—JULY 23, 2010 (ASADHA 26, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

कप्तान के पद पर (परख पर)

नई दिल्ली, दिनांक 17 जुलाई 2010

सं. 366, दिनांक 14 जून 2010—अनुदेश 14/79 द्वारा यथासंशोधित
थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निम्नलिखित
नियुक्ति करते हैं।

नियमित सेना

अल्पकालीन आयोग

सर्जन लेफ्टि के पद पर (परख पर)

सर्जन लेफ्टि आर के रनबीर सिंह (एमएस-15811एच) (75976के),
आयोग की तिथि, 25 अप्रैल 2008 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता
25 अक्टूबर 2007 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता
शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

फ्लाईट लेफ्टि क्षत्रीमयूम संदीप कुमार सिंह (एमएस-15988डब्ल्यू)
(एएफ-29438टी), आयोग की तिथि, 22 मई 2008 को वेतन और पदोन्नति
के लिए ज्येष्ठता 22 नवम्बर 2007 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता
शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

कप्तान ऋचा नाईक (एमएस-16017एक्स), आयोग की तिथि,
26 फरवरी 2009 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 26 अगस्त
2008 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति/स्नातकोत्तर योग्यता के लिए 06 महीने पहले
से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

फ्लाईट लेफ्टि भेडिगीरी शिरीष रमेश (एमएस-15485एल) (एयर
फोर्स-28869टी) आयोग की तिथि, 22 सितम्बर 2006 को वेतन और
पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 22 सितम्बर 2004 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति/स्नातकोत्तर योग्यता प्रसूती विज्ञान के लिए
24 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी
जाएगी)

कप्तान सोनिया दत्ता (एमएस-15718एफ), आयोग की तिथि,
25 अप्रैल 2008 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 25 अक्टूबर
2007 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता
शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

कप्तान शैलेश कुमार जैन (एमएस-16041एन), आयोग की तिथि, 26 फरवरी 2009 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 26 अगस्त 2008 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

कप्तान प्रियदर्शनी चक्रवर्ती (एमएस-15828डब्ल्यू), आयोग की तिथि, 22 मई 2008 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 22 मई 2006 से दी जाएगी।

(इसमें स्नातकोत्तर योग्यता डिप्लोमा बधिरीकरणशास्त्र के लिए 24 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

कप्तान रश्मि चक्रवर्ती (एमएस-15939एन), आयोग की तिथि, 18 नवम्बर 2008 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 18 मई 2008 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

कप्तान तृप्ति गुप्ता (एमएस-16048एक्स), आयोग की तिथि, 26 फरवरी 2009 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 26 फरवरी 2006 से दी जाएगी।

(इसमें स्नातकोत्तर योग्यता शल्यविज्ञान निष्णाता (प्रसूति-तन्त्र तथा स्त्री रोग के लिए 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

कप्तान लिमजोय चारा (एमएस-15872ए), आयोग की तिथि, 12 अगस्त 2008 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 12 फरवरी 2008 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

कप्तान रोहित अग्रवाल (एमएस-15942एन), आयोग की तिथि, 02 दिसम्बर 2008 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 02 जून 2008 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

कप्तान स्वराज पाल खजूरिया (एमएस-15863वाई), आयोग की तिथि, 12 अगस्त 2008 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 12 फरवरी 2008 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

कप्तान शुभ्रोज्ज्वल साहा (एमएस-15909डब्ल्यू), आयोग की तिथि, 12 अगस्त 2008 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 12 फरवरी 2008 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

कप्तान राजीव रंजन (एमएस-15887एच), आयोग की तिथि, 12 अगस्त 2008 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 12 फरवरी 2008 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

कप्तान मीनाक्षी राजपूत (एमएस-15891एल), आयोग की तिथि, 12 अगस्त 2008 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 12 फरवरी 2008 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

फ्ला लेफ्टिनेन्ट के पद पर (परख पर)

फ्ला लेफ्टि विकास कुमार सोरल (एमएस-15823एक्स) (एएफ-29431), एएमसी, 25 अप्रैल 2008

कप्तान के पद पर (परख पर)

कप्तान आर परमेश्वर राव (एमएस-15819पी), एएमसी, 25 अप्रैल 2008

कप्तान मनदयाल जमातिया (एमएस-16053एच), एएमसी, 26 फरवरी 2009

कप्तान नरेन्द्र कुमार कैसाम (एमएस-15605वाई), एएमसी, 06 सितम्बर 2007

कप्तान आकोइजम ब्रजमणि सिंह (एमएस-16060वाई), एएमसी, 26 फरवरी 2009

कप्तान रोसलिन कैसाम (एमएस-16071एल), एएमसी, 26 फरवरी 2009

कप्तान बीरमा राम (एमएस-16086एन), एएमसी, 25 जून 2009

कप्तान एस बालासुब्रमनियन (एमएस-15364के), एएमसी, 22 सितम्बर 2006

कप्तान नेहा काकरिया (एमएस-15743ए), एएमसी, 25 अप्रैल 2008

कप्तान रोहन जे (एमएस-15834के), एएमसी, 22 मई 2008

कप्तान विशाल पूनिया (एमएस-15999एच), एएमसी, 26 फरवरी 2009

कप्तान हीरा लाल (एमएस-16010एन), एएमसी, 26 फरवरी 2009

कप्तान सुखदेवे नितीन भानुदास (एमएस-16012वाई), एएमसी, 26 फरवरी 2009

कप्तान अमनदीप (एमएस-16015एम), एएमसी, 26 फरवरी 2009

कप्तान मुकेश खत्री (एमएस-16018ए), एएमसी, 26 फरवरी 2009

कप्तान प्रवीण कुमार श्रीवास्तव (एमएस-16024एन), एएमसी, 26 फरवरी 2009

कप्तान नेहा सिंह (एमएस-16026वाई), एएमसी, 26 फरवरी 2009

कप्तान योगेन्द्र द्विवेदी (एमएस-16033पी), एएमसी, 26 फरवरी 2009

कप्तान एकता बिस्वास (एमएस-16043वाई), एएमसी, 26 फरवरी 2009

कप्तान रीतुराज कोटोकी (एमएस-16049ए), एएमसी, 26 फरवरी 2009

कप्तान दिलीप सिंह शक्तावत (एमएस-16051एक्स), एएमसी, 26 फरवरी 2009

कप्तान लेनिन सोलंकी (एमएस-16056डब्ल्यू), एएमसी, 26 फरवरी 2009

कप्तान निशान्त तौर (एमएस-16057वाई), एएमसी, 26 फरवरी 2009

कप्तान फुरिल्साबम विंगलेम्बा (एमएस-16058एफ), एएमसी, 26 फरवरी 2009

कप्तान कोलवेन्नु बलराम कुमार (एमएस-15748वाई), एएमसी, 25 अप्रैल 2008

कप्तान डब्ल्यू एस लुमथुंग अणल (एमएस-15843एल), एएमसी, 03 जून 2008

कप्तान पूजा शंकर (एमएस-16073डब्ल्यू), एएमसी, 09 अप्रैल 2009

कप्तान प्रेम अरविंद बिलुंग (एमएस-15879के), एएमसी, 12 अगस्त 2008

कप्तान राजेश कुमार (एमएस-15916एम), एएमसी, 12 अगस्त 2008

कप्तान शुभेन्दु कुमार नायक (एमएस-15996पी), एएमसी, 26 फरवरी 2009

कप्तान दीपक अग्रवाल (एमएस-16005एच), एएमसी, 26 फरवरी 2009

कप्तान जाहिद अली खान (एमएस-16006एल), एएमसी, 26 फरवरी 2009

कप्तान अजय कुमार (एमएस-16061एफ), एएमसी, 26 फरवरी 2009

कप्तान सत्यजित चक्रवर्ती (एमएस-16065एक्स), एएमसी, 26 फरवरी 2009

कप्तान कुमार शैशन (एमएस-16076के), एएमसी, 09 अप्रैल 2009

कप्तान मदन गोपाल विश्णोई (एमएस-16021ए), एएमसी, 26 फरवरी 2009

कप्तान गुरुलिंगेश एम (एमएस-16022एच), एएमसी, 26 फरवरी 2009

कप्तान पप्पू कुमार पाण्डेय (एमएस-16023एल), एएमसी, 26 फरवरी 2009

कप्तान सुमित जिन्दल (एमएस-16037एल), एएमसी, 26 फरवरी 2009

कप्तान शैलेश कुमार जैन (एमएस-16041एन), एएमसी, 26 फरवरी 2009

कप्तान सिंह स्मिता साहिब सिंह (एमएस-16042डब्ल्यू), एएमसी, 26 फरवरी 2009

कप्तान तृप्ति गुप्ता (एमएस-16048एक्स), एएमसी, 26 फरवरी 2009

कप्तान वेद प्रकाश सिंह (एमएस-16052ए), एएमसी, 26 फरवरी 2009

कप्तान धर्मेन्द्र कुमार सैनी (एमएस-16081पी), एएमसी, 09 अप्रैल 2009

कप्तान रश्मि शर्मा (एमएस-16082एक्स), एएमसी, 09 अप्रैल 2009

कप्तान विनोद कुमार सिंह (एमएस-16085एल), एएमसी, 19 जून 2009

कप्तान राजेश चन्द्र कर (एमएस-15716डब्ल्यू), एएमसी, 25 अप्रैल 2008

कप्तान मनीष खन्डारे (एमएस-15766एफ), एएमसी, 25 अप्रैल 2008

कप्तान धोंगम सचिन सिंह (एमएस-15636वाई), एएमसी, 06 सितम्बर 2007

कप्तान अरविन्द कुमार निरंजन (एमएस-15856एच), एएमसी, 12 अगस्त 2008

कप्तान कुनाल गुप्ता (एमएस-15862डब्ल्यू), एएमसी, 12 अगस्त 2008

कप्तान स्वराज पाल खजूरिया (एमएस-15863वाई), एएमसी, 12 अगस्त 2008

कप्तान मन्नु कुमार तिवारी (एमएस-15866एम), एएमसी, 12 अगस्त 2008

कप्तान लिमजोय चारा (एमएस-15872ए), एएमसी, 12 अगस्त 2008

कप्तान स्मिता पाठक (एमएस-15901के), एएमसी, 12 अगस्त 2008

कप्तान अरिजित मजूमदार (एमएस-15910के), एएमसी, 12 अगस्त 2008

कप्तान जैदीप लोचम (एमएस-15911एन), एएमसी, 12 अगस्त 2008

कप्तान गौरव (एमएस-15936ए), एएमसी, 07 अक्टूबर 2008

कप्तान परवीन कुमार (एमएस-16003एक्स), एएमसी, 26 फरवरी 2009

कप्तान तरांगे अर्चना (एमएस-16007एन), एएमसी, 26 फरवरी 2009

कप्तान नरेश गुप्ता (एमएस-16009वाई), एएमसी, 26 फरवरी 2009

सर्जन लेफ्टि के पद पर (परख पर)

सर्जन लेफ्टि मनोज जॉर्ज वर्गीस (एमएस-15881एफ), एएमसी, 12 अगस्त 2008

सर्जन लेफ्टि आर के रनबीर सिंह (एमएस-15811एच), एएमसी, 25 अप्रैल 2008

सर्जन लेफ्टि संतोष कुमार स्वाइन (एमएस-16020एक्स), एएमसी, 26 फरवरी 2009

सर्जन लेफ्टि अलोक प्रकाश आचार्य (एमएस-16029एम), एएमसी, 26 फरवरी 2009

सर्जन लेफ्टि शिवाजी शंकर घोष (एमएस-16069एन), एएमसी, 26 फरवरी 2009

सर्जन लेफ्टि गाईचाँगसुई लाऊरेंस कामाई (एमएस-15609पी), एएमसी, 06 सितम्बर 2007

सर्जन लेफ्टि डी राममोहन (एमएस-16013एफ), एएमसी, 26 फरवरी 2009

सर्जन लेफ्टि जोरसे नीतिन नारायण (एमएस-16014के), एएमसी, 26 फरवरी 2009

सर्जन लेफ्टि शचीन्द्र कुमार पाठक (एमएस-16035ए), एएमसी, 26 फरवरी 2009

सर्जन लेफ्टि पी चंद्रशेखर रेड्डी (एमएस-16055एन), एएमसी, 26 फरवरी 2009

सर्जन लेफ्टि सुर्यवंशी मनोहर हनुमंतराव (एमएस-16080एम), एएमसी, 09 अप्रैल 2009

सर्जन लेफ्टि अमित शर्मा (एमएस-16077एम), एएमसी, 09 अप्रैल 2009

सर्जन लेफ्टि कुरुवा एल्लारामुडु (एमएस-15993एफ), एएमसी, 26 फरवरी 2009

सर्जन लेफ्टि बाणी सुनित कुमार सूर्यकांत (एमएस-16034एक्स), एएमसी, 26 फरवरी 2009

सर्जन लेफ्टि चन्दर सिंह (एमएस-16047पी), एएमसी, 26 फरवरी 2009

सर्जन लेफ्टि विष्णु मोहन एम (एमएस-16084एच), एएमसी, 13 जून 2009

सर्जन लेफ्टि कौशिक कुमार भोल (एमएस-15418ए), एएमसी, 22 सितम्बर 2006

राष्ट्रपति महोदय, यथा-संशोधित थल सेना अनुदेश 75/78 के अधीन 7 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :--

नियमित सेना

अल्पकालीन कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा)

सर्जन सब लेफ्टि के पद पर (परख पर)

सर्जन सब लेफ्टि ज्योति शर्मा (एमएस-15950एम), एएमसी, 05 मार्च 2009

लेफ्टि के पद पर (परख पर)

लेफ्टि विष्णु जी नायर (एमएस-15954एच), एएमसी, 05 मार्च 2009

लेफ्टि गौरव त्रिवेदी (एमएस-16087डब्ल्यू), एएमसी, 09 सितम्बर 2009

लेफ्टि मनविंदर तेजपाल (एमएस-16088वाई), एएमसी, 09 सितम्बर 2009

फ्ला ऑफिसर के पद पर (परख पर)

फ्ला ऑफिसर दिव्या गुप्ता (एमएस-15949एक्स) (एफ-30360), एएमसी, 05 मार्च 2009

यश पांडे

बिग्रे

उप महानिदेशक स से चि स (मा सं)

सेना शाखा

सं. 367, दिनांक 14 जून 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को सहर्ष नियुक्ति करने की अनुमति प्रदान करते हैं :--

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

(टीए-42102एक्स) कैप्टन नरेन्द्र सिंह अब (टीए-42102) ले नरेन्द्र सिंह को प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत दिनांक 29 जनवरी 2008 से लेफ्टिनेन्ट के पद पर इन्फैन्ट्री (टीए) में

कमीशन प्रदान किया जाता है। प्रादेशिक सेना की 07 साल और 30 दिन (दिनांक 24 अगस्त 1991 से 05 अक्टूबर 1998) की सेवा के लिए उन्हें प्रादेशिक सेना में 29 जनवरी 2001 से लेफ्टिनेन्ट के पद पर वरीयता प्रदान की जाती है। पिछली तिथि से वरीयता के कारण उन्हें प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 के पैरा 25 (ए) तथा 38 (ए) में निहित प्रावधान (संशोधित संस्करण 1976), के अन्तर्गत वेतन वृद्धि एवम् पदोन्नति के लिए सैद्धान्तिक वरीयता के साथ दिनांक 29 जनवरी 2005 से कैप्टन और दिनांक 29 जनवरी 2009 से मेजर के पद पर पदोन्नति किया जाता है।

जयराज
अवर सचिव

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 368, दिनांक 14 जून 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :--

राष्ट्रपति, महोदय निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से 15,600--39,100/- (पे बैंड-3) + 5,400/- ग्रेड पे रूपए के वेतनमान में दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा में अस्थायी वैज्ञानिक 'बी' (ग्रुप 'ए') के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

पिन संख्या	नाम	स्थापना/प्रयोगशाला	नियुक्ति की तिथि
1	2	3	4
2007AB1235	श्री जय प्रकाश यादव	एआरडीई, अग्रा	23.05.2007
2008AB1407	श्री के एस गौड	एएसएल, हैदराबाद	21.05.2008
2007AB1338	श्री नाइडू सतीश कुमार	एएसएल, हैदराबाद	01.08.2007
2008AB1578	श्री रणधीर प्रसाद	एएसएल, हैदराबाद	03.12.2008
2008AB1014	श्री रजनीश सिंह	सीसीई (आर एंड डी) नॉर्थ, दिल्ली	21.05.2008
2008AB1565	श्री विक्रान्त सङ्का	डेयर, बेंगलूर	03.12.2008
2007AB1286	श्री परिजात बाजपेई	डील, देहरादून	23.05.2007
2008AB1387	श्री अश्वनी कुमार चौरसिया	डीआरएल, तेजपुर	21.05.2008
2008AB1048	श्री नवीन प्रकाश श्रीवास्तव	एटीवीपी, दिल्ली	21.05.2008
2008AB1056	श्री विनोद	एचईएमआरएल, पुणे	21.05.2008
2008AB1105	श्री अभिजीत डी लोनडे	आईएनएस शिवाजी, लोनावाला	21.05.2008
2008AB1107	श्री सुनील शिवाजी कदम	आईएनएस शिवाजी, लोनावाला	21.05.2008
2008AB1182	श्री संजय कुमार प्रधान	एलआरडीई, (पी1 एवं पी2,) भुवनेश्वर	21.05.2008
2008AB1577	श्री ब्रजेश कुमार	एलआरडीई, बेंगलूर	03.12.2008
2008AB1218	श्री अशिश मुखर्जी	एनएसटीएल, विशाखापत्तनम	21.05.2008
2006AB1123	सुश्री पूनम पंचाल	एनपीओएल, कोन्ची	11.10.2006

1	2	3	4
2008AB1267	श्री चंद्रकांत सुपेर	आर एंड डी(ई) ए, पुणे	21.05.2008
2008AB1412	श्री एन मलिकार्जुन नाइक	आरसीई, हैदराबाद	28.05.2008
2008AB1603	श्री मनीश कुमार	एसएफसी, जगदलपुर	03.12.2008
2008AB1347	श्री कुशल कुमार साहु	एसएफसी, जगदलपुर	21.05.2008
2008AB1357	श्री नितिन रंजन	स्पीक, दिल्ली	21.05.2008
2007AB1191	श्री एस वी दशरथ	वीआरडीई, अहमदनगर	23.05.2007
2007AB1193	श्री अवनित कुमार	वीआरडीई, अहमदनगर	14.11.2007

नरसिंह साहु
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

सं. 369, दिनांक 14 जून 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित एमएनएस अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तिथियों से पदोन्नति प्रदान करते हैं :--

स्थायी आर्मी

मिलिट्री नर्सिंग सेवा

स्थायी कमीशन

कर्नल से ब्रिगे

पद और नाम, व्यक्तिगत संख्या तथा पदोन्नति की तारीख

ब्रिगेडियर टी के भूटिया (एनआर-16269के), 01 दिसम्बर 2009

लेफ्टि कर्नल (सेलेक्ट) से कर्नल

पद और नाम, व्यक्तिगत संख्या तथा पदोन्नति की तारीख

कर्नल शान्ता दुधाल (एनआर-16714एक्स), 01 नवम्बर 2009

टी पदमिनी

मेजर जनरल

अतिरिक्त महानिदेशक (एमएनएस)

थल सेना शाखा

सं. 370, दिनांक 15 जून 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सेना चिकित्सा कोर

लेफ्टि कर्नल से कर्नल (टीएस) के पद पर

लेफ्टि कर्नल रवि नेगी (एनटीआर-16563), 21 जनवरी 2010

विंग कमाण्डर/ग्रुप कैप्टन (टीएस) से ग्रुप कैप्टन (चयन व समकक्ष)
के रैंक में

नाम एमआर सं. एवं टिप्पणी

ए भगवानानी (एमआर-04786पी) (एएफ-17271), 20 अप्रैल 2009
वेतन एवं पेशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 17 जनवरी 2009
से दी जाती है।

एस मोदक (एमआर-06105ए) (एएफ-18433), 17 मार्च 2009
वेतन एवं पेशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 24 जनवरी 2009
से दी जाती है।

एच साहनी (एमआर-05331एल) (एएफ-18192), 02 मार्च 2009
वेतन एवं पेशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 29 जनवरी 2009
से दी जाती है।

आर एस शर्मा (एमआर-05710एफ) (एएफ-18851), 09 मार्च 2009
वेतन एवं पेशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 04 फरवरी 2009
से दी जाती है।

एम शुक्ला (एमआर-06203ए) (एएफ-18672), 06 अप्रैल 2009
वेतन एवं पेशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 20 फरवरी 2009
से दी जाती है।

गिरिराज सिंह (एमआर-06700के) (एएफ-19458), 01 जुलाई 2009
वेतन एवं पेशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 11 अप्रैल 2009
से दी जाती है।

संजय भार्गव (एमआर-05529के) (एएफ-18697), 12 अगस्त 2009
वेतन एवं पेशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 जून 2009 से
दी जाती है।

लेफ्टि कर्नल से कर्नल (टीएस) के पद पर

लेफ्टि कर्नल जे जे जे फैलिरो (एमआर-03878पी), 16 दिसम्बर 2004

विंग कमाण्डर से ग्रुप कैप्टन (टीएस) के पद पर

रैंक, नाम, एमआर सं. एवं तारीख

विंग कमाण्डर ए के दीक्षित (एमआर-06437के), 23 मई 2009

विंग कमाण्डर आर के सक्सेना (एमआर-05025डब्ल्यू), 01 जून 2009

विंग कमाण्डर ए जी नैयर (एमआर-05880एल), 01 जून 2009

सर्जन कमाण्डर से सर्जन कैप्टन (टीएस) के पद पर

सर्जन कमाण्डर सी सी वर्मा (एमआर-04678एल) (75288),
16 दिसम्बर 2004

यश पांडे

ब्रिगे

उप महानिदेशक स से चि से (मा सं)

सं. 371, दिनांक 15 जून 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित एम एन एस
अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तिथियों से पदोन्नति प्रदान
करते हैं :--

स्थायी आर्मी

मिलिट्री नर्सिंग सेवा

स्थायी कमीशन

मेजर से लेफ्टि कर्नल (टीएस)

पद और नाम, व्यक्तिगत संख्या एवं पदोन्नति की तारीख

लेफ्टि कर्नल शिल्पी रॉय (एनआर-19684डब्ल्यू), 14 अक्टूबर 2009

लेफ्टि कर्नल (टीएस) से लेफ्टि कर्नल (सेलेक्ट)

लेफ्टि कर्नल टी पी विजयम्मा (एनआर-17367डब्ल्यू), 03 अगस्त
2009

लेफ्टि कर्नल विमला बी (एनआर-17557एच), 20 अगस्त 2009

लेफ्टि कर्नल लायसम्मा जेवियर (एनआर-17643एन), 03 अगस्त 2009

टी पदमिनी

मेजर जनरल

अतिरिक्त महानिदेशक (एम एन एस)

सेना शाखा

सं. 372, दिनांक 15 जून 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी
की उनके सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से लेफ्टि कर्नल के पद पर

दीपक वशिष्ठ (एमआर-07081एन), एएमसी, 20 जनवरी 2010

सुरभी वशिष्ठ (एमआर-07085के), एएमसी, 20 जनवरी 2010

के उदयभानु (एमआर-07098एफ), एएमसी, 20 जनवरी 2010

वी आनन्द (एमआर-07099के), एएमसी, 20 जनवरी 2010

अनिनदिता चटर्जी (एमआर-07107एक्स), एएमसी, 20 जनवरी 2010

आर कपूर (एमआर-06854डब्ल्यू), एएमसी, 08 जनवरी 2008

अभिजीत वासु (एमआर-08007वाई), एएमसी, 28 दिसम्बर 2009

सर्जन लेफ्टि कमाण्डर से सर्जन कमाण्डर के पद पर

हरिमुकुन्दन (एमएस-14235एक्स) (एमआर-08218एफ)
(75753आर), एएमसी, 14 सितम्बर 2009

अल्पकालिक सेवा कमीशन

सेना चिकित्सा सेवा

मेजर से लेफ्टि कर्नल के पद पर

मेजर (श्रीमती) नीता पावा (एमएस-13408एक्स), 11 जनवरी 2010

सर्जन लेफ्टि से सर्जन लेफ्टि कमांडर के पद पर

सर्जन लेफ्टि चौहान अर्चना चंद्रकांत (एमएस-15167एफ) (75905के), 16 दिसम्बर 2007

सर्जन लेफ्टि कुसुम लता (एमएस-15560के) (75957बी), 17 जुलाई 2008

सर्जन लेफ्टि अमित कुमार (एमएस-14860वाई) (75854डब्ल्यू), 09 अगस्त 2009

सर्जन लेफ्टि विवेक सचन (एमएस-14874वाई) (75860एच), 09 अगस्त 2009

सर्जन लेफ्टि मनीष गुलिया (एमएस-14875एफ) (75861के), 09 अगस्त 2009

सर्जन लेफ्टि शिशिर गुप्ता (एमएस-14866ए) (75856जैड), 11 अगस्त 2009

स्थायी कमीशन

कप्तान से मेजर के पद पर

चन्दन सिन्हा (एमआर-08170वाई), एएमसी, 27 दिसम्बर 2009

डी वी भार्गव (एमआर-08174पी), एएमसी, 27 दिसम्बर 2009

चंदन कुमार ठाकुर (एमआर-08173एम), एएमसी, 27 दिसम्बर 2009

सतीश कुमार (एमआर-08175एक्स), एएमसी, 27 दिसम्बर 2009

जय सेन (एमआर-08187एम), एएमसी, 27 दिसम्बर 2009

अनीश कुमार विशाल (एमआर-08188पी), एएमसी, 27 दिसम्बर 2009

खुशबू (एमआर-08804के), एएमसी, 27 दिसम्बर 2009

विवेक गुप्ता (एमआर-08148एन), एएमसी, 27 दिसम्बर 2009

मनीशा सिवन (एमआर-08155के), एएमसी, 27 दिसम्बर 2009

सुकरानन्द पी (एमआर-08171एफ), एएमसी, 27 दिसम्बर 2009

विनोद कुमार (एमआर-08172के), एएमसी, 27 दिसम्बर 2009

वादलामनी सूर्य प्रकाश (एमआर-08180एच), एएमसी, 27 दिसम्बर 2009

विवेक पालीवाल (एमआर-08135डब्ल्यू), एएमसी, 27 दिसम्बर 2009

रोहित मेहरा (एमआर-08169के), एएमसी, 27 दिसम्बर 2009

सर्जन लेफ्टि से सर्जन लेफ्टि कमांडर के पद पर

प्रशान्त वशिष्ठ (एमआर-08763एल) (75903एफ), एएमसी, 16 दिसम्बर 2009

राहुल त्यागी (एमआर-08159ए) (75869बी), एएमसी, 27 दिसम्बर 2009

कौशिक राय (एमआर-08166डब्ल्यू) (75872के), एएमसी, 27 दिसम्बर 2009

अल्पकालीन सेवा कमीशन

सेना चिकित्सा सेवा

कैप्टन से मेजर के पद पर

कैप्टन संतोष कुमार चन्देरिया (एमएस-15937एच), 04 नवम्बर 2009

कैप्टन दिलकराजन एस (एमएस-15104वाई), 16 दिसम्बर 2009

कैप्टन खुशप्रीत सिंह ओबरोय (एमएस-15134डब्ल्यू), 16 दिसम्बर 2009

कैप्टन जगदीपक गिल्ल (एमएस-15150एन), 16 दिसम्बर 2009

कैप्टन ऋषि शर्मा (एमएस-14864पी), 09 अगस्त 2009

कैप्टन सत्यकी मुखर्जी (एमएस-14876के), 09 अगस्त 2009

कैप्टन वाराकुट्टी मल्लिका (एमएस-14915एक्स), 27 दिसम्बर 2009

कैप्टन इमरान मेहदी (एमएस-14923डब्ल्यू), 27 दिसम्बर 2009

कैप्टन अवनीश कुमार (एमएस-14924वाई), 27 दिसम्बर 2009

कैप्टन विनोद कुमार साहू (एमएस-14930एम), 27 दिसम्बर 2009

कैप्टन दुर्गेश कुमार शर्मा (एमएस-14931पी), 27 दिसम्बर 2009

कैप्टन अखिलेश कुमार मिश्रा (एमएस-14933ए), 27 दिसम्बर 2009

कैप्टन इन्द्र प्रकाश दूबे (एमएस-14935एल), 27 दिसम्बर 2009

कैप्टन अभिषेक कुमार शर्मा (एमएस-14936एन), 27 दिसम्बर 2009

कैप्टन अंशु कुमार (एमएस-14939एफ), 27 दिसम्बर 2009

कैप्टन विजय कुमार पवार (एमएस-14940डब्ल्यू), 27 दिसम्बर 2009

कैप्टन अभिषेक राठौर (एमएस-14941वाई), 27 दिसम्बर 2009

कैप्टन पुनीत दीवान (एमएस-14943के), 27 दिसम्बर 2009

कैप्टन प्रकाश सोलंकी (एमएस-14942एफ), 30 दिसम्बर 2009

कैप्टन उमा महेश्वरी एम (एमएस-15816एफ), 25 अप्रैल 2009

कैप्टन रूप सिंह परमार (एमएस-15117डब्ल्यू), 16 दिसम्बर 2009

कैप्टन संध्या (एमएस-15120डब्ल्यू), 16 दिसम्बर 2009

कैप्टन आदित्या सांगवान (एमएस-15121वाई), 16 दिसम्बर 2009

कैप्टन कनगराज आर (एमएस-15127ए), 16 दिसम्बर 2009
 कैप्टन तापस कुमार मंडल (एमएस-15128एच), 16 दिसम्बर 2009
 कैप्टन गुरदीप सिंह (एमएस-15137के), 16 दिसम्बर 2009
 कैप्टन तुकाराम राठौड (एमएस-15185के), 23 दिसम्बर 2009
 कैप्टन संजीव एस शर्मा (एमएस-15186एच), 22 सितम्बर 2007
 कैप्टन अविनाश कुमार (एमएस-14884एच), 24 मार्च 2008
 कैप्टन घनश्याम स्वर्गीयारी (एमएस-15751वाई), 25 अक्टूबर 2008
 कैप्टन दीपक हीरा (एमएस-15746एन), 25 अक्टूबर 2009
 कैप्टन सिंह सुधीर अखिलेश कुमार (एमएस-15600ए), 06 मार्च 2008
 कैप्टन नवरत्न सिंह राठौर (एमएस-15138एम), 16 जून 2009
 कैप्टन भावना पाठक (एमएस-15895एफ), 12 अगस्त 2009
 कैप्टन प्रिया टांक (एमएस-15926डब्ल्यू), 16 सितम्बर 2009
 कैप्टन प्रकाश ओ (एमएस-15847एफ), 18 फरवरी 2009
 कैप्टन उपासना बरुवा (एमएस-15707पी), 25 अप्रैल 2009
 कैप्टन कामखेडकर योगेश नन्दकुमार (एमएस-15619वाई),
 06 सितम्बर 2009

यश पांडे
 ब्रिगे

उप महानिदेशक स से चि से (मा सं)

स्थायी आर्मी

मिलिट्री नर्सिंग सेवा

स्थायी कमीशन

सं. 373, दिनांक 15 जून 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित एम एन एस अधिकारियों को उनके नाम के सामने समक्ष दर्शायी गयी तिथियों से पदोन्नति प्रदान करते हैं :--

कैप्टन से मेजर

पद और नाम, व्यक्तिगत संख्या एवं पदोन्नति की तारीख

मेजर शिल्पी रॉय (एनआर-19684डब्ल्यू), 14 अक्टूबर 2001

(कमीशन तिथि 30 सितम्बर 1989, 14 सितम्बर से 19 सितम्बर 1997 और 21 नवम्बर 2000 से 28 नवम्बर 2000, कुल 14 दिन की अनुपस्थिती बिना वेतनमान के नियमित की गई)

मेजर सेलिना मलाकान्डी दत्त (एनआर-20285वाई), 06 सितम्बर 2008

टी पदमिनी

मेजर जनरल

अतिरिक्त महानिदेशक (एम एन एस)

सेना शाखा

सं. 374, दिनांक 16 जून 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित एएमसी/एसएससी अधिकारियों की उनके सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

अल्पकालीन सेवा कमीशन

सेना चिकित्सा सेवा

लेफ्टि से कैप्टन के पद पर

लेफ्टि शिवराज सिंह बल (एमएस-15668एफ), 01 फरवरी 2009

लेफ्टि गौर किशोर अधिकारी (एमएस-15678एल), 01 फरवरी 2009

लेफ्टि अखिल राघवन (एमएस-15564ए), 30 जुलाई 2008

लेफ्टि वैभव श्रीवास्तव (एमएस-15565एच), 30 जुलाई 2008

लेफ्टि अभिनव सिंह (एमएस-15703वाई), 19 अगस्त 2009

लेफ्टि सिद्धार्थ एस मणी (एमएस-15566एल), 30 जुलाई 2008

लेफ्टि हरलीन कौर (एमएस-15701एन), 19 अगस्त 2009

यश पांडे

ब्रिगे

उप महानिदेशक स से चि से (मा सं)

सेना शाखा

सं. 375, दिनांक 16 जून 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को सहर्ष पदोन्नति करने की अनुमति प्रदान करते हैं :--

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

कैप्टन बनाया जाता है

लेफ्टि अतुल कृष्णा जोशी (टीए-42561), (इंजीनियर टीए),
 06 जनवरी 2007

लेफ्टि एच के यादव (टीए-42565), (इंजीनियर टीए), 06 जनवरी
 2007

जय राज

अवर सचिव

थलसेना विभाग (एमजीओ) ईएमई कार्मिक

सं. 376, दिनांक 16 जून 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियों करते हैं :--

हवलदार से नायब सूबेदार आटो टेक इंजीनियर इक्यूपमेंट के रैंक में

बलिराम प्रसाद (सं. 14563629वाई अब जेसी-764260वाई),
 01 नवम्बर 2009

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक गन के रैंक में
पैदि रंगनाथमू (सं. 14622137ए अब जेसी-764277एम), 16 सितम्बर
2009/01 सितम्बर 2009 *

अरुमुगम के (सं. 14622186ए अब जेसी-764278पी), 01 अक्टूबर
2009

श्रीरामलू सी (सं. 14622189डब्ल्यू अब जेसी-764279एक्स),
01 अक्टूबर 2009

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक स्माल आर्म्स के रैंक में
कन सिंह (सं. 14617010एन अब जेसी-764280एम), 01 अक्टूबर
2009

हवलदार से नायब सूबेदार टेक अप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के रैंक में
ओम प्रकाश सिंह (सं. 14618108एन अब जेसी-764281पी),
01 अक्टूबर 2009

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक (नेट वर्किंग) के रैंक में
त्रिलोचन सिंह (सं. 14614935वाई अब जेसी-764283ए), 01 अक्टूबर
2009

अमरजीत सिंह (सं. 14615064डब्ल्यू अब जेसी-764284एच),
01 अक्टूबर 2009

राजेन्द्र सिंह (सं. 14616638के अब जेसी-764285एल), 01 अक्टूबर
2009

राकेश कुमार (सं. 14617181ए अब जेसी-764286एन), 13 अक्टूबर
2009/01 अक्टूबर 2009 *

चंद्र मोहन (सं. 14617278एल अब जेसी-764287डब्ल्यू), 01 अक्टूबर
2009

चरन लालजी भाई वालाभाई (सं. 14617285एफ अब जेसी-
764288वाई), 01 अक्टूबर 2009

रवी एम (सं. 14617524एल अब जेसी-764289एफ), 01 अक्टूबर
2009

किशोर सिंह (सं. 14615712एन अब जेसी-764290डब्ल्यू), 01 नवम्बर
2009

परथा कुमार पैतंडेय (सं. 14617350डब्ल्यू अब जेसी-764291वाई),
01 नवम्बर 2009

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक बी व्हीकल के रैंक में
उदा राम कुमावत (सं. 14608873एन अब जेसी-764292एफ),
31 अक्टूबर 2009/04 जनवरी 2009 *

हरीश के (सं. 14609968ए अब जेसी-764293के), 05 अक्टूबर
2009/01 मार्च 2009 *

शुन्नी लाल (सं. 14611305एन अब जेसी-764294एम), 04 अक्टूबर
2009/01 मार्च 2009 *

किंथादा सत्या राव (सं. 14611368डब्ल्यू अब जेसी-764295पी),
01 अक्टूबर 2009/01 मार्च 2009 *

रामेश कुमार जरबादे (सं. 14612248के अब जेसी-764296एक्स),
15 अक्टूबर 2009/01 अप्रैल 2009 *

रघवीर सिंह (सं. 14612502एच अब जेसी-764297ए), 01 अक्टूबर
2009/01 अप्रैल 2009 *

मधवा (सं. 14619079डब्ल्यू अब जेसी-764298एच), 01 अक्टूबर
2009/01 अप्रैल 2009 *

ओम प्रकाश पान्डेय (सं. 14619203एम अब जेसी-764299एल),
01 अक्टूबर 2009/01 मई 2009 *

राम आशीश शर्मा (सं. 14619445पी अब जेसी-764300पी),
01 अक्टूबर 2009/04 सितम्बर 2009 *

तेजेन्द्र प्रताप सिंह (सं. 14619813वाई अब जेसी-764301एक्स),
* 01 अक्टूबर 2009/01 मई 2009 *

भरत चरन स्वेन (सं. 14620837पी अब जेसी-764302ए), 01 अक्टूबर
2009/01 अगस्त 2009 *

सुरेश एन (सं. 14622713वाई अब जेसी-764303एच), 21 अक्टूबर
2009/01 अगस्त 2009 *

नित्या नंद झा (सं. 14623747वाई अब जेसी-764304एल),
01 अक्टूबर 2009/01 सितम्बर 2009 *

अवधेश कुमार सिंह (सं. 14609037डब्ल्यू अब जेसी-764305एन),
01 नवम्बर 2009

तिलक राज (सं. 14610786वाई अब जेसी-764306डब्ल्यू), 01 नवम्बर
2009

राजेश कुमार (सं. 14618927एक्स अब जेसी-764307वाई),
05 नवम्बर 2009/01 नवम्बर 2009 *

जय शंकर वी (सं. 14619563एच अब जेसी-764308एफ),
01 नवम्बर 2009

सुशील तिवारी (सं. 14619507के अब जेसी-764309के), 01 नवम्बर
2009

संजीव कुमार (सं. 14619780वाई अब जेसी-764310वाई), 03 नवम्बर
2009/01 नवम्बर 2009 *

रविन्द्र गैन (सं. 14620854पी अब जेसी-764311एफ), 01 नवम्बर 2009

उमेद राम साहू (सं. 14620649एन अब जेसी-764312के), 12 नवम्बर
2009/01 नवम्बर 2009 *

*(पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है)

एन के कश्मीरा
अवर सचिव

वायु सेना मुख्यालय

सं. 377, दिनांक 16 जून 2010--राष्ट्रपति सहर्ष, श्री बी पी धसमाना,
प्रधान निजी सचिव (ग्रुप क राजपत्रित) को सशस्त्र सेना मुख्यालय
आशुलिपिक सेवा 2004 के नियम 7(3) के तहत वरिष्ठ प्रधान निजी
सचिव, (ग्रुप क राजपत्रित, वेतनबंध-3, रुपए 15,600--39,100/- +
7,600/- ग्रेड वेतन) के पद पर दिनांक 02 फरवरी 2010 से 30 जून 2010
तक पदोन्नत करते हैं।

2. अधिकारी की वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के आधार पर है :--

(क) यह पदोन्नति पूर्णतः अस्थायी आधार पर की गई है तथा प्रशासनिक कारणों से बिना किसी सूचना दिए समाप्त की जा सकती है।

(ख) उपर्युक्त पद पर स्थायी पदोन्नति के लिए अधिकारी का न तो कोई दावा होगा और न ही उनकी अस्थायी नियुक्ति की अवधि को वरिष्ठता के लिए गिना जाएगा।

राष्ट्रपति सहर्ष, श्री भीम सेन, निजी सचिव (ग्रुप ख राजपत्रित) को सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में प्रधान निजी सचिव, (ग्रुप क राजपत्रित, वेतनबंध-3, रुपये 15,600--39,100/- + 6,600/- ग्रेड वेतन) के पद पर दिनांक 26 नवम्बर 2009 से पदोन्नत करते हैं।

ए के लारोइया
उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सेना शाखा

सं. 378, दिनांक 17 जून 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को सेवानिवृत्त होने पर अपना रैंक बनाये रखने और वर्दी पहनने की अनुमति प्रदान करते हैं :--

प्रादेशिक सेना

सेवानिवृत्त

लेफ्टि कर्नल हर्ष वर्मन (टीए-42089) (मार्केटिंग टीए), 31 अक्टूबर 2009 (एएन)

जय राज
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 379, दिनांक 17 जून 2010--राष्ट्रपति सहर्ष, निम्नलिखित अधिकारियों को सेवा निवृत्ति कि अवधि पूरी होने पर सैनिक सेवा से निवृत्ति होने की अनुमति प्रदान करते हैं :--

नियमित सेवा

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा) (गैर तकनिकी)

पद, नाम, व्यक्तिगत सं., जन्म तिथि व सेवा निवृत्ति की तिथि

लेफ्टि कर्नल ए के भोखंडी (एनटीआर-16557डब्ल्यू), 10 जनवरी 1953, 31 जनवरी 2009

लेफ्टि कर्नल तिलक गोई (एनटीआर-16580के), 05 अक्टूबर 1953, 31 अक्टूबर 2009

यश पांडे
ब्रिगे

उप महानिदेशक स से चि से (मा सं)

सेना शाखा

शुद्धि-पत्र

सं. 380, दिनांक 17 जून 2010--रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या के द्वारा दिनांक 21 अगस्त 2004 और 08 अप्रैल 2006 को शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित की गई, जी एस ब्रांच को एतद्वारा निम्नलिखित प्रकार से संशोधित किया जाता है :--

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

के लिए :--

मेजर एम के अहलुवालिया (टीए-42092) (इन्फैन्ट्री), 10 जुलाई 2003

मेजर पी एस राठौर (टीए-42331) (इन्फैन्ट्री), 08 जुलाई 2004

मेजर राजेश तंवर (टीए-42344) (इन्फैन्ट्री), 08 जुलाई 2004

पढ़ें :--

मेजर एम के अहलुवालिया (टीए-42092) (इन्फैन्ट्री), 01 जून 2003

(वेतन एवं भत्ते दिनांक 10 जुलाई 2003 से प्रभावित)

मेजर पी एस राठौर (टीए-42331) (इन्फैन्ट्री), 11 फरवरी 2003

(वेतन एवं भत्ते दिनांक 08 जुलाई 2004 से प्रभावित)

मेजर राजेश तंवर (टीए-42344) (इन्फैन्ट्री), 21 मार्च 2004

(वेतन एवं भत्ते दिनांक 08 जुलाई 2004 से प्रभावित)

रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या के द्वारा दिनांक 28 मई 2005 और 05 अगस्त 2004 को शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित की गई, जी एस ब्रांच को एतद्वारा निम्नलिखित प्रकार से संशोधित किया जाता है :--

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

के लिए :--

कैप्टन विकांत कौशल (टीए-42324) (इन्फैन्ट्री), 03 फरवरी 2004

कैप्टन वेदव्रत वैद्य (टीए-42327) (इन्फैन्ट्री), 07 जुलाई 2003

पढ़ें :--

कैप्टन विकांत कौशल (टीए-42324) (इन्फैन्ट्री), 11 फरवरी 2003

(वेतन एवं भत्ते दिनांक 03 फरवरी 2004 से प्रभावित)

कैप्टन वेदव्रत वैद्य (टीए-42327) (इन्फैन्ट्री), 11 फरवरी 2003

(वेतन एवं भत्ते दिनांक 07 जुलाई 2003 से प्रभावित)

जय राज
अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 17th July 2010

ARMY BRANCH

No. 366, dated the 14 June 2010—The President is pleased to make the following appointments for a period of 5 years under AI 75/78 as amended:—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

To be Flt Lt

Surg Lt R K Ranbir Singh (MS-15811H) (75976K), DOC, 25 Apr 2008

With seniority for pay and promotion from 25 Oct 2007. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification published in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Flt Lt Kshetrimayum Sandeep Kumar Singh (MS-15988W) (AF-29438T), DOC, 22 May 2008

With seniority for pay and promotion from 22 Nov 2007. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification published in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

To be Capt

Capt Richa Naik (MS-16017X), DOC, 26 Feb 2009

With seniority for pay and promotion from 26 Aug 2008. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification published in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Flt Lt Bhendigiri Shirish Ramesh (MS-15485L) (AF-28869T), DOC, 22 Sep 2006

With seniority for pay and promotion from 22 Sep 2004. This includes 24 months antedate seniority for PG Diploma in Gynaecology and Obstetrics, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification published in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Sonia Datta (MS-15718F), DOC, 25 Apr 2008

With seniority for pay and promotion from 25 Oct 2007. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification published in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Shailesh Kumar Jain (MS-16041N), DOC, 26 Feb 2009

With seniority for pay and promotion from 26 Aug 2008. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification published in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Priyadarshini Chakravarty (MS-15828W), DOC, 22 May 2008

With seniority for pay and promotion from 22 May 2006. This includes 24 months antedate seniority for PG Diploma in Anaesthesiology, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification published in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Rashmi Chakraborty (MS-15939N), DOC, 18 Nov 2008

With seniority for pay and promotion from 18 May 2008. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification published in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Tripti Gupta (MS-16048X), DOC, 26 Feb 2009

With seniority for pay and promotion from 26 Feb 2006. This includes 36 months antedate for Master of Surgery (Obstetrics and Gynaecology) which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification published in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Lemjoy Chara (MS-15872A), DOC, 12 Aug 2008

With seniority for pay and promotion from 12 Feb 2008. This includes 06 months antedate for Hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification published in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Rohit Agrawal (MS-15942N), DOC, 02 Dec 2008

With seniority for pay and promotion from 02 Jun 2008. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification published in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Swaraj Paul Khajuria (MS-15863Y), DOC, 12 Aug 2008

With seniority for pay and promotion from 12 Feb 2008. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification published in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Shubhrojwal Saha (MS-15909W), DOC, 12 Aug 2008

With seniority for pay and promotion from 12 Feb 2006. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification published in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Rajeev Ranjan (MS-15887H), DOC, 12 Aug 2008

With seniority for pay and promotion from 12 Feb 2008. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification published in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Meenakshi Rajput (MS-15891L), DOC, 12 Aug 2008

With seniority for pay and promotion from 12 Feb 2008. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification published in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

To be Flt Lt on probation

Flt Lt Vikas Kumar Soral (MS-15823X) (AF-29431), AMC 25 Apr 2008

To be Capt on probation

Capt R Parameswara Rao (MS-15819P), AMC, 25 Apr 2008

Capt Mandayal Jamatia (MS-16053H), AMC, 26 Feb 2009

Capt Narendra Kumar Keisham (MS-15605Y), AMC, 06 Sep 2007

Capt Akoijam Brajamani Singh (MS-16060Y), AMC, 26 Feb 2009

Capt Roshlin Keisham (MS-16071L), AMC, 26 Feb 2009

Capt Birma Ram (MS-16086N), AMC, 26 Jun 2009

Capt S Balasubramanian (MS-15364K), AMC, 22 Sep 2006

Capt Neha Kakria (MS-15743A), AMC, 25 Apr 2008

Capt Rohan J (MS-15834K), AMC, 22 May 2008

Capt Vishal Pooniya (MS-15999H), AMC, 26 Feb 2009

Capt Heera Lal (MS-16010N), AMC, 26 Feb 2009

Capt Sukhadeve Nitin Bhanudas (MS-16012Y), AMC, 26 Feb 2009

Capt Amandeep (MS-16015M), AMC, 26 Feb 2009

Capt Mukesh Khatri (MS-16018A), AMC, 06 Feb 2009

Capt Praveen Kumar Srivastava (MS-16024N), AMC, 26 Feb 2009

Capt Neha Singh (MS-16026Y), AMC, 26 Feb 2009

Capt Yogendra Dwivedi (MS-16033P), AMC, 26 Feb 2009

Capt Ekta Biswas (MS-16043Y), AMC, 26 Feb 2009

Capt Rituraj Kotoki (MS-16049A), AMC, 26 Feb 2009

Capt Dileep Singh Shaktawat (MS-16051X), AMC, 26 Feb 2009

Capt Lenin Solanki (MS-16056W), AMC, 26 Feb 2009

Capt Nishant Taur (MS-16057Y), AMC, 26 Feb 2009

Capt Phuritshabam Chinglemba (MS-16058F), AMC, 26 Feb 2009

Capt Kolavennu Balaram Kumar (MS-15748Y), AMC, 25 Apr 2008

Capt WS Lumthung Anal (MS-15843L), AMC, 03 Jun 2008

Capt Pooja Shankar (MS-16073W), AMC, 09 Apr 2009

Capt Prem Arvind Bilung (MS-15879K), AMC, 12 Aug 2008

Capt Rajesh Kumar (MS-15916M), AMC, 12 Aug 2008

Capt Suvendu Kumar Nayak (MS-15996P), AMC, 26 Feb 2009

Capt Deepak Agarwal (MS-16005H), AMC, 26 Feb 2009

Capt Zahid Ali Khan (MS-16006L), AMC, 26 Feb 2009

Capt Ajay Kumar (MS-16061F), AMC, 26 Feb 2009

Capt Satyajit Chakraborty (MS-16065X), AMC, 26 Feb 2009

Capt Kumar Raushan (MS-16076K), AMC, 09 Apr 2009

Capt Madan Gopal Vishnoi (MS-16021A), AMC, 26 Feb 2009

Capt Gurulingesh M (MS-16022H), AMC, 26 Feb 2009

Capt Pappu Kumar Pandey (MS-16023L), AMC, 26 Feb 2009

Capt Sumit Jindal (MS-16037L), AMC, 26 Feb 2009

Capt Shailesh Kumar Jain (MS-16041N), AMC, 26 Feb 2009

Capt Singh Smita Sahib Singh (MS-16042W), AMC, 26 Feb 2009

Capt Tripti Gupta (MS-16048X), AMC, 26 Feb 2009

Capt Ved Prakash Singh (MS-16052A), AMC, 26 Feb 2009

Capt Dharmendra Kumar Saini (MS-16081P), AMC, 09 Apr 2009

Capt Rashmi Sharma (MS-16082X), AMC, 09 Apr 2009

Capt Vinod Kumar Singh (MS-16085L), AMC, 19 Jun 2009

Capt Rajesh Ch Kar (MS-15716W), AMC, 25 Apr 2008

Capt Manish Khandare (MS-15766F), AMC, 25 Apr 2008

Capt Thongam Sachin Singh (MS-15636Y), AMC, 06 Sep 2007

Capt Arvind Kumar Niranjana (MS-15856H), AMC, 12 Aug 2008

Capt Kunal Gupta (MS-15862W), AMC, 12 Aug 2008

Capt Swaraj Paul Khajuria (MS-15863Y), AMC, 12 Aug 2008

Capt Mannu Kumar Tiwari (MS-15866M), AMC, 12 Aug 2008

Capt Lemjoy Chara (MS-15872A), AMC, 12 Aug 2008

Capt Smita Pathak (MS-15901K), AMC, 12 Aug 2008

Capt Arijit Mazumdar (MS-15910L), AMC, 12 Aug 2008

Capt Jaideep Locham (MS-15911N), AMC, 12 Aug 2008

Capt Gaurab (MS-15936A), AMC, 07 Oct 2008

Capt Parveen Kumar (MS-16003X), AMC, 26 Feb 2009

Capt Tarange Archana (MS-16007N), AMC, 26 Feb 2009

Capt Naresh Gupta (MS-16009Y), AMC, 26 Feb 2009

To be Surg Lt on probation

Surg Lt Manoj George Varghese (MS-15881F), AMC, 12 Aug 2008

Surg Lt RK Ranbir Singh (MS-15811H), AMC, 25 Apr 2008

Surg Lt Santosh Kumar Swain (MS-16020X), AMC, 26 Feb 2009

Surg Lt Alok Prakash Acharya (MS-16029M), AMC, 26 Feb 2009

Surg Lt Sivaji Sankar Ghose (MS-16069N), AMC, 26 Feb 2009

Surg Lt Gaichangsui Lawrence Kamei (MS-15609P), AMC, 06 Sep 2007

Surg Lt D Rammohan (MS-16013F), AMC, 26 Feb 2009

Surg Lt Borse Neetin Narayan (MS-16014K), AMC, 26 Feb 2009

Surg Lt Shachindra Kumar Pathak (MS-16035A), AMC, 26 Feb 2009

Surg Lt P Chandra Shekhar Reddy (MS-16055N), AMC, 26 Feb 2009

Surg Lt Suryavanshi Manohar Hanmantrao (MS-16080M), AMC, 09 Apr 2009

Surg Lt Amit Sharma (MS-16077M) (23636), AMC, 09 Apr 2009

Surg Lt Kuruva Yellaramudu (MS-15993F), AMC, 26 Feb 2009

Surg Lt Wani Sunitkumar Suryakant (MS-16034X), AMC, 26 Feb 2009

Surg Lt Chander Singh (MS-16047P), AMC, 26 Feb 2009

Surg Lt Vishnu Mohan M (MS-16084H), AMC, 13 Jun 2009

Surg Lt Kaushik Kumar Bhol (MS-15418A), AMC, 22 Sep 2006

The President is pleased to make the following appointments for a period of 7 years under AI 75/78 as amended:—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

To be Surg Sub Lt on probation

Surg Sub Lt Jyoti Sharma (MS-15950M), AMC, 05 Mar 2009

To be Lt on probation

Lt Vishnu G Nair (MS-15954H), AMC, 05 Mar 2009

Lt Gaurav Trivedi (MS-16087W), AMC, 09 Sep 2009

Lt Manvinder Tejpal (MS-16088Y), AMC, 09 Sep 2009

(To be Fg Offr on probation)

FG Offr Divya Gupta (MS-15949X) (AF-30360), AMC, 05 Mar 2009

YASH PANDE

Brig

Dy DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 367, dated 14th June 2010—The President is pleased to make the following appointment:—

TERRITORIAL ARMY

TERRITORIAL COMMISSION

TA-42102X Ex Capt Narendra Singh Now TA-42703 Lt Narendra Singh has been granted commission as an officer in the Territorial Army (infantry) on 29 Jan 2008 in the rank of Lt under the provision given in Appendix VIII of TA Act Rule 1948. He is also granted 07 years 30 days of service (24 Aug 1991 to 05 Oct 1998) antedate seniority with effect from 29 Jan 2001 in the rank of Lt for his former service in the Territorial Army. By virtue of his antedate seniority, he is promoted as Capt with effect from 29 Jan 2005 and Major with effect from 29 Jan 2009 with notional seniority for pay and promotion in the rank of the Captain with effect from 29 Jan 2005 and Major with effect from 29 Jan 2009 under the provisions of para 25(a) & 38(a) of TA Act 1948 (Revised Edition 1976).

JAI RAJ

Under Secy

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANIZATION

No. 368, dated 14th June 2010—The President is pleased to make the following appointments:—

The undermentioned individuals (s) to be temporary Scientist (s) 'B' (Group 'A') in the Defence Research and Development Service on probation for a period of two years with effect from the dates shown against their

names in the Pay Scale of Rs. 15,600-39,100/- (Pay Band-3) + Grade Pay of Rs. 5400/-

Pin No., Name, Estt./Lab and Date of Joining

2007 AB 1235 Shri Jai Prakash Yadav, ARDE, Pune, 23 May 2007

2008 AB 1407 Shri K Sathaiah Goud, ASL Hyderabad, 21 May 2008

2007 AB 1338 Shri Naidu Sateesh Kumar, ASL Hyderabad, 01 Aug 2007

2008 AB 1578 Shri Randhir Prasad, ASL Hyderabad, 03 Dec 2008

2008 AB 1014 Shri Rajneesh Singh, CCE (R&D) North, Delhi, 21 May 2008

2008 AB 1565 Shri Vikrant Sadda, DARE, Bangalore, 03 Dec 2008

2007 AB 1286 Shri Parijat Bajpai, DEAL Dehradun, 23 May 2007

2008 AB 1387 Shri Asshwani Kumar Chaurasia, DRL Tezpur, 21 May 2008

2008 AB 1048 Shri Naveen Prakash Srivastava, HQ ATVP, Delhi, 21 May 2008

2008 AB 1056 Shri Vinod, HEMRL, Pune, 21 May 2008

2008 AB 1105 Shri Abhijeet D Londhe, INS Shivaji, Lonavala, 21 May 2008

2008 AB 1107 Shri Sunil Shivaji Kadam, INS Shivaji, Lonavala, 21 May 2008

2008 AB 1182 Shri Sanjaya Kr. Pradhan, LRDE, (P1 & P2) Bhubaneswar, 21 May 2008

2008 AB 1577 Shri Brajesh Kumar, LRDE, Bangalore, 03 Dec 2008

2008 AB 1218 Shri Asish Mukherjee, NSTL, Vishakhapatnam, 21 May 2008

2006 AB 1123 Ms Poonam Panchal, NPOL, Kochi, 11 Oct 2006

2008 AB 1267 Shri Chandrakant Supare, R&DE(E), Pune, 21 May 2008

2008 AB 1412 Shri N Mallikarjun Naik, RCI, Hyderabad, 28 May 2008

2008 AB 1603 Shri Manish Kumar, SFC, Jagdalpur, 03 Dec 2008

2008 AB 1347 Shri Kushal Kumar Sahu, SFC, Jagdalpur, 21 May 2008

2008 AB 1357 Shri Nitin Ranjan, SPIC, Delhi, 21 May 2008

2007 AB 1191 Shri SV Dasharath, VRDE, Ahmednagar, 23 May 2007

2007 AB 1193 Shri Awanit Kumar, VRDE, Ahmednagar, 14 Nov 2007

NARSINGH SAHU
Joint Dir (Pers)

No. 369, dated 14th June 2010—The President is pleased to make the following promotions in respect of MNS officers with effect from the date (s) mentioned against the each name:—

REGULAR ARMY
(PERMANENT COMMISSION)

Colonel to Brigadier

Rank & Name, Pers number and Date of Promotion

Brig T.K. Bhutia (NR-16269K), 01 Dec 2009

Lt Col (Select) to Col

Col Shanta Dudhal (NR-16714X), 01 Nov 2009

T PADMINI
Maj Gen
Addl DGMNS

ARMY BRANCH

No. 370, dated 15th June 2010—The President is pleased to make the promotions of undermentioned AMC officers with effect from the dates as indicated against their names:—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION

Lt Col to Col (Time Scale)

(NTR-16563) Lt Col Ravi Negi, 21 Jan 2010

Wg Cdr/Gp Capt (TS) to be GP Capt (Selection & equivalent)

A Bhagwanani (MR-04786P) (AF-17271), 20 Apr 2009 with notional seniority without effect on pay & pension from 17 Jan 2009

S Modak (MR-06105A) (AF-18433), 17 Mar 2009 with notional seniority without effect on pay & pension from 24 Jan 2009

H Sahni (MR-05331L) (AF-18192), 02 Mar 2009 with notional seniority without effect on pay & pension from 29 Jan 2009

RM Sharma (MR-05710F) (AF-18851), 09 Mar 2009 with notional seniority without effect on pay & pension from 04 Feb 2009

M Shukla (MR-06203A) (AF-18672), 06 Apr 2009 with notional seniority without effect on pay & pension from 20 Feb 2009

Giriraj Singh (MR-06700K) (AF-19458), 01 Jul 2009 with notional seniority without effect on pay & pension from 11 Apr 2009

Sanjay Bhargava (MR-05529K) (AF-18697), 12 Aug 2009 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Jun 2009

Lt Col to Col (Time Scale)

Lt Col JJJ Falleiro (MR-3878P), 16 Dec 2004

Wg Cdr to Gp Capt (Time Scale)

Wg Cdr AK Dixit (MR-6437K), 23 May 2009

Wg Cdr RK Saxena (MR-5025W), 01 Jun 2009

Wg Cdr AG Nair (MR-5880L), 01 Jun 2009

Surg Cdr To Surg Capt (Time Scale)

Surg Cdr CC Verma (MR-4678L) (75288), 16 Dec 2004

YASH PANDE

Brig

Dy DG AFMS (HR)

No. 371, dated 15th June 2010—The President is pleased to make the following promotion in respect of MNS officers with effect from the date (s) mentioned against the each name:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Maj to Lt Col (TS)

Rank & Name, Pers Number and Date of Promotion

Lt Col Silpi Roy (NR-19684W), 14 Oct 2009

Lt Col (TS) to Lt Col (Select)

Lt Col TP Vijayamma (NR-17367W), 03 Aug 2009

Lt Col Vimala B (NR-17557H), 20 Aug 2009

Lt Col Laisamma Xavier (NR-17643N), 03 Aug 2009

T PADMINI

Maj Gen

Addl DGMNS

ARMY BRANCH

No. 372, dated 15th June 2010—The President is pleased to make the promotion of the undermentioned AMC officers with effect from the date mentioned against their names :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Maj to be Lt Col

Deepak Vashisht (MR-07081N), AMC, 20 Jan 2010

Surbhi Vashisht (MR-07085K), AMC, 20 Jan 2010

K Uday Bhanu (MR-07098F), AMC, 20 Jan 2010

V Anand (MR-07099K), AMC, 20 Jan 2010

Anindita Chatterjee (MR-07107X), AMC, 20 Jan 2010

R Kapoor (MR-06854W), AMC, 08 Jan 2008

Abhijit Basu (MR-08007Y), AMC, 28 Dec 2009

Surg Lt Cdr to be Surg Cdr

Hari Mukundan (MS-14235X) (MR-08218F) (75753R), AMC, 14 Sep 2009

SHORT SERVICE COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS

Maj to Lt Col

Maj (Mrs) Neeta Pawah (MS-13408X), 11 Jan 2010

Surg Lt to Surg Lt Cdr

Surg Lt Chouhan Archana Chandrakant (MS-15167F) (75905K), 16 Dec 2007

Surg Lt Kusum Lata (MS-15560K) (75957B), 17 Jul 2008

Surg Lt Amit Kumar (MS-14860Y) (75854W), 09 Aug 2009

Surg Lt Vivek Sachan (MS-14874Y) (75860H), 09 Aug 2009

Surg Lt Manish Gulia (MS-14875F) (75861K), 09 Aug 2009

Surg Lt Shishir Gupta (MS-14866A) (75856Z), 11 Aug 2009

PERMANENT COMMISSION

Capt to be Maj

Chandan Sinha (MR-08170Y), AMC, 27 Dec 2009

DV Bhargava (MR-08174P), AMC, 27 Dec 2009

Chandan Kumar Thakur (MR-08173M), AMC, 27 Dec 2009

Satish Kumar (MR-08175X), AMC, 27 Dec 2009

Joy Sen (MR-08187M), AMC, 27 Dec 2009

Anish Kumar Vishal (MR-08188P), AMC, 27 Dec 2009

Khusbu (MR-08804K), AMC, 27 Dec 2009

Vivek Gupta (MR-08148N), AMC, 27 Dec 2009

Maneesha Sivan (MR-08155K), AMC, 27 Dec 2009

Sankaranand P (MR-08171F), AMC, 27 Dec 2009

Vinod Kumar (MR-08172K), AMC, 27 Dec 2009

Vadlamani Surya Prakash (MR-08180H), AMC, 27 Dec 2009

Vivek Paliwal (MR-08135W), AMC, 27 Dec 2009

Rohit Mehra (MR-08169K), AMC, 27 Dec 2009

Surg Lt to be Surg Lt Cdr

Prashant Vashisht (MR-08763L) (75903F), AMC, 16 Dec 2009

Rahul Tyagi (MR-08159A) (75869B), AMC, 27 Dec 2009

Kaushik Roy (MR-08166W) (75872K), AMC, 27 Dec 2009

SHORT SERVICE COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS

Capt to Maj

Capt Santosh Kumar Chanderiya (MS-15937H), 04 Nov 2009

Capt Thilagarajan S (MS-15104Y), 16 Dec 2009

Capt Khushpreet Singh Oberoi (MS-15134W), 16 Dec 2009

Capt Jagdeepak Gill (MS-15150N), 16 Dec 2009

Capt Rishi Sharma (MS-14864P), 09 Aug 2009

Capt Satyaki Mukherjee (MS-14876K), 09 Aug 2009

Capt Varakuti Mallika (MS-14915X), 27 Dec 2009

Capt Imran Mehdi (MS-14923W), 27 Dec 2009

Capt Avnish Kumar (MS-14924Y), 27 Dec 2009

Capt Vinod Kumar Sahu (MS-14930M), 27 Dec 2009

Capt Durgesh Kumar Sharma (MS-14931P), 27 Dec 2009

Capt Akhilesh Kumar Mishra (MS-14933A), 27 Dec 2009

Capt Indra Prakash Dubey (MS-14935L), 27 Dec 2009

Capt Abhishek Kumar Sharma (MS-14936N), 27 Dec 2009

Capt Anshu Kumar (MS-14939F), 27 Dec 2009

Capt Vijay Kumar Pawar (MS-14940W), 27 Dec 2009

Capt Abhishek Rathore (MS-14941Y), 27 Dec 2009

Capt Puneet Dewan (MS-14943K), 27 Dec 2009

Capt Pramod Solanki (MS-14942F), 30 Dec 2009

Capt Uma Maheshwari M (MS-15816F), 25 Apr 2009

Capt Rupsingh Parmar (MS-15117W), 16 Dec 2009

Capt Sandhaya (MS-15120W), 16 Dec 2009

Capt Advitya Sangwan (MS-15121Y), 16 Dec 2009

Capt Kanagaraj R (MS-15127A), 16 Dec 2009

Capt Tapas Kumar Mandal (MS-15128H), 16 Dec 2009

Capt Gurdeep Singh (MS-15137K), 16 Dec 2009

Capt Tukaram Rathod (MS-15185K), 23 Dec 2009

Capt Sanjeev S Sharma (MS-15386H), 22 Sep 2006

Capt Avinash Kumar (MS-14884H), 24 Sep 2004

Capt Ghanashyam Swargiary (MS-15751Y), 25 Oct 2008

Capt Dipak Hira (MS-15746N), 25 Oct 2009

Capt Singh Sudheer Akhilesh Kumar (MS-15600A), 06 Mar 2008

Capt Navratan Singh Rathore (MS-15138M), 16 Jun 2009

Capt Bhawana Pathak (MS-15895F), 12 Aug 2009

Capt Priya Taank (MS-15926W), 16 Sep 2009

Capt Prakash O (MS-15847F), 18 Feb 2009

Capt Upasana Baruah (MS-15707P), 25 Apr 2009

Capt Kamkhedkar Yogesh Nandkumar (MS-15619Y), 06 Sep 2009

YASH PANDE

Brig

Dy DGAFMS (HR)

No. 373, dated 15th June 2010—The President is pleased to make the following promotion in respect of MNS officer with effect from the date(s) mentioned against the each name:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Capt to Maj

Rank & Name, Pers No. and Date of Promotion

Maj Silpi Roy (NR-19684W) 14 Oct 2001

(DOC-30 Sep 1989 absent period wef 14 Sep 1997 to 19 Sep 1997 & 21 Nov 2000 to 28 Nov 2000 total 14 days regularized by Automatic forfeiture of Pay & Allces for the period of absence)

Maj Salina Mullakandy Dutt (NR-20285Y) 06 Sep 2008

T PADMINI

Maj Gen

Addl DGMNS

ARMY BRANCH

No. 374, dated 16th June 2010—The President is pleased to make the promotion of the undermentioned AMC/SSC officers with effect from the date mentioned against them:—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS

To be Capt

Lt Shivraj Singh Bal (MS-15668F), 01 Feb 2009

Lt Gour Kishore Adhikari (MS-15678L), 01 Feb 2009

Lt Akhil Raghavan (MS-15564A), 30 Jul 2008

Lt Vaibhav Srivastava (MS-15565H), 30 Jul 2008

Lt Abhinav Singh (MS-15703Y), 19 Aug 2009

Lt Siddharth S Mani (MS-15566L), 30 Jul 2008

Lt Harleen Kaur (MS-15701N), 19 Aug 2009

YASH PANDE

Brig

Dy DG AFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 375, dated 16th June 2010—The President is pleased to make the following promotions:—

TERRITORIAL ARMY

TERRITORIAL COMMISSION

To be Capt

Lt Atul Krishna Joshi (TA-42561), (Engr TA), 06 Jan 2007

Lt HK Yadav (TA-42565), (Engr TA), 06 Jan 2007

JAI RAJ

Under Secy

No. 376, dated 16th June 2010—The President is pleased to make the following Appointments/Promotions:—

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGR
BRANCH

Hav to be Nb Auto Tech Engr Eqpt

Baliram Prasad (No. 14563629Y now JC- 764260Y), 01 Nov 2009

Hav to be Nb Sub Master Tech Gun

Paidi Ranganadhamu (No. 14622137A now JC- 764277M), 16 Sep 2009/01 Sep 2009*

Arumugam K (No. 14622186H now JC- 764278P), 01 Oct 2009

Sriramulu C (No. 14622189W now JC- 764279X), 01 Oct 2009

Hav to be Nb Sub Master Tech Small Arms

Kan Singh (No. 14617010N now JC- 764280M), 01 Oct 2009

Hav to be Nb Sub Master Tech OPTO Electronic

Om Prakash Singh (No. 14618108N now JC- 764281P), 01 Oct 2009

Hav to be Nb Sub Master Tech Net Working

Tirlochan Singh (No. 14614935Y now JC- 764283A), 01 Oct 2009

Amarjit Singh (No. 14615064W now JC- 764284H), 01 Oct 2009

Rajender Singh (No. 14616638K now JC- 764285L), 01 Oct 2009

Rakesh Kumar (No. 14617181A now JC- 764286N), 13 Oct 2009/01 Oct 2009*

Chander Mohan (No. 14617278L now JC- 764287W), 01 Oct 2009

Charan Laljibhai Valabhai (No. 14617285F now JC- 764288Y), 01 Oct 2009

Ravi M (No. 14617524L now JC- 764289F), 01 Oct 2009

Kishore Singh (No. 14615712N now JC-764290W), 01 Nov 2009

Partha Kumar Paitandy (No. 14617350W now JC- 764291Y), 01 Nov 2009

Hav to be Nb Sub Master Tech B Veh

Uda Ram Kumawat (No. 14608873N now JC- 764292F), 31 Oct 2009/04 Jan 2009*

Hareesh K (No. 14609968A now JC- 764293K), 05 Oct 2009/01 Mar 2009*

Thunni Lal (No. 14611305N now JC- 764294M), 04 Oct 2009/01 Mar 2009*

Kinthada Satya Rao (No. 14611368W now JC- 764295P), 01 Oct 2009/01 Mar 2009*

Ramesh Kumar Zarbade (No. 14612248K now JC- 764296X), 15 Oct 2009/01 Apr 2009*

Raghubir Singh (No. 14612502H now JC- 764297A), 01 Oct 2009/01 Apr 2009*

Madhva (No. 14619079W now JC- 764298H), 01 Oct 2009/01 Apr 2009*

Om Prakash Pandey (No. 14619203M now JC- 764299L), 01 Oct 2009/01 May 2009*

Ram Ashish Sharma (No. 14619445P now JC- 764300P), 01 Oct 2009/04 Sep 2009*

Tejendra Pratap Singh (No. 14619813Y now JC- 764301X), 01 Oct 2009/01 May 2009*

Bharat Charan Swain (No. 14620837P now JC- 764302A),
01 Oct 2009/01 Aug 2009*

Suresh N (No. 14622713Y now JC- 764303H), 21 Oct 2009/
01 Aug 2009*

Nityanand Jha (No. 14623747Y now JC- 764304L), 01 Oct
2009/01 Sep 2009*

Awdhesh Kumar Singh (No. 14609037W now JC-
764305N), 01 Nov 2009

Tilak Raj (No. 14610786Y now JC- 764306W), 01 Nov 2009

Rajesh Kumar (No. 14618927X now JC- 764307Y), 05 Nov
2009/01 Nov 2009*

Jai Shankar V (No. 14619563H now JC- 764308F), 01 Nov
2009

Sushil Tiwary (No. 14619507K now JC- 764309K), 01 Nov
2009

Sanjeev Kumar (No. 14619780Y now JC- 764310Y),
03 Nov 2009/01 Nov 2009*

Ravindra Gain (No. 14620854P now JC- 764311F), 01 Nov
2009

Umed Ram Sahu (No. 14620649N now JC-764312K),
12 Nov 2009/01 Nov 2009*

*Gtd antedated seniority.

N K KASHMIRA
Under Secy

AIR HEADQUARTERS

No. 377, dated 16th June 2010—The President is pleased to promote Shri BP Dhasmana, Principal Private Secretary (Group 'A' Gazetted) of AFHQ Stenographers' Service as Senior Principal Private Secretary (Group 'A' Gazetted, PB-3, Rs. 15,600-39,100 + 7,600 Grade Pay) under rule 7(3) of AFHQ Stenographers' Service, 2004 with effect from 02 Feb 2010 to 30 Jun 2010.

2. The promotion shall be subjected to the following terms and conditions as per AFHQ Stenographers Service Rules, 2004:—

- (a) The promotion shall be operated on purely temporary basis and can be terminated on administrative ground without issuing any prior notice to this effect.
- (b) The officer shall have no claim for regular promotion/appointment on the basis of temporary promotion granted now. The period of such appointment shall not count towards seniority in the grade of SrPPS.

The President is pleased to promote Shri Bhim Sain, Private Secretary (Group 'B' Gazetted) of AFHQ Steno-

graphers' Service as Principal Private Secretary (Group 'A' Gazetted, Pay Band-3, Rs. 15,600-39,100 + 6,600 Grade Pay) with effect from 26 Nov 2009.

AK LAROIYA
Dy Chief Admn Officer

ARMY BRANCH

No. 378, dated 17th June 2010—The President is pleased to permit the following officer to retire with permission to retain his rank and wearing of uniform:—

TERRITORIAL ARMY

Retirement

Lt Col Harsh Varman (TA-42089), Mktg (TA), 31 Oct 2009
(AN)

JAI RAJ
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 379, dated 17 June 2010—The President is pleased to permit the undermentioned officer to retire from Army Service on attaining the age of superannuation:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

Pers No., Rank, Name, Date of Birth and Date of Retirement

(NTR-16557W) Lt Col AK Baukhandi, 10 Jan 1953/31 Jan
2009

(NTR-16580K) Lt Col Tilak Gogoi, 05 Oct 1953/31 Oct
2009

YASH PANDE
Brig
Dy DG AFMS (HR)

ARMY BRANCH

CORRIGENDA

No. 380, dated 17th June 2010—In the Government of India, Ministry of Defence, Notification No. published in Gazette on 21 Aug 2004 and 08 Apr 2006 under heading

"Territorial Army" sub heading "Territorial Commission" is hereby amended as under:—

TERRITORIAL ARMY
TERRITORIAL COMMISSION

For :—

Maj MK Ahluwalia (TA-42092), Inf, 10 Jul 2003

Maj PS Rathore (TA-42331), Inf, 08 Jul 2004

Maj Rajesh Tanwar (TA-42344), Inf, 08 Jul 2004

Read :—

Maj MK Ahluwalia (TA-42092), Inf, 01 Jun 2003

(but the pay & allowances with effect from 10 Jul 2003)

Maj PS Rathore (TA-42331), Inf, 11 Feb 2003

(but the pay & allowances with effect from 08 Jul 2004)

Maj Rajesh Tanwar (TA-42344), Inf, 21 Mar 2004

(but the pay & allowances with effect from 08 Jul 2004)

In the Government of India, Ministry of Defence,

Notification No. published in Gazette on 28 May 2005 and 05 Aug 2004 under heading "Territorial Army" sub heading "Territorial Commission" is hereby amended as under :—

TERRITORIAL ARMY
TERRITORIAL COMMISSION

For :—

Capt Vikrant Kaushal (TA-42324), Inf, 03 Feb 2004

Capt Vedvrat Vaidya (TA-42327), Inf, 07 Jul 2003

Read :—

Capt Vikrant Kaushal (TA-42324), Inf, 11 Feb 2003

(but the pay & allowances with effect from 03 Feb 2004)

Capt Vedvrat Vaidya (TA-42327), Inf, 11 Feb 2003

(but the pay & allowances with effect from 07 Jul 2003)

JAI RAJ
Under Secy